



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART III—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27, 1982/फाल्गुन 8, 1903

No. 65] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27, 1982/FALGUNA 8, 1903

एक भाग में मिलन दृष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

द्विस्त संश्लेष

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1982

सं. 21ए/82 केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा.जा.वि. 81(2) के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम,  
1944 (1941 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख  
30 जनवरी, 1982 की अधिसूचना सं. 10/82-फो.उ.शु. को अधिष्ठात करके

1572 GI/81

(181)

हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना को प्रथम अनुसूची की मद सं. 1 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए चार सौ नब्बे रुपये प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य नियत करती है :—

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात, ऐसी चीनी को लागू नहीं होगी, जिसकी वास्तव केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन, किए जाने की अपेक्षा करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 1982 से प्रवृत्त होगी ।

[21-ए/82-के.उ.शु./फा.सं. 7-1-82-के.उ.शु.-1]

आर. देव, अवर सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 1982

No. 21-A/82-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 81(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 10/82-Central Excises, dated the 30th January, 1982, the Central Government hereby fixes a tariff value of four hundred and ninety rupees per quintal of sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty ad-valorem :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 1982.

[No. 21-A/82-CE/F. No. 7/1/82-CX. I]

R. DEB, Under Secy.